

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लोकल कलाकारों और गैर-लाभ संगठनों की मदद के लिए ग्रांट आवेदन खोले

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 अक्टूबर, 2021) – आज से शुरू करते हुए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दो कम्युनिटी ग्रांट मौकों के लिए आवेदन स्वीकार कर रही है। एक, जरूरी प्रोग्राम और सेवाएं प्रदान करने वाले ब्रैम्पटन के गैर-लाभ संगठनों की हिमायत के लिए है और दूसरा लोकल कलाकारों की कोविड-19 (COVID-19) महामारी से बहाली में मदद के लिए है।

एडवांस ब्रैम्पटन फंड

यह 600,000 डॉलर का एक कम्युनिटी-ग्रांट प्रोग्राम है, जो ब्रैम्पटन के योग्य गैर-लाभ या चेरिटेबल संगठनों को, कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करने वाले प्रोग्राम और सेवाएं प्रदान करने के लिए फंड देता है।

तीन फंडिंग स्ट्रीम्स उपलब्ध हैं:

- **एमर्जिंग** – यह स्ट्रीम, नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए मेल खाते फंडों में 5,000 डॉलर तक प्रदान करती है। यह 4 से 29 अक्टूबर तक खुली है।
- **डिवेलपिंग** - यह स्ट्रीम, उन प्रोग्रामों के लिए मेल खाते फंडों में 12,500 डॉलर तक प्रदान करती है, जो ब्रैम्पटन में कम से कम एक बार संचालित हुए हैं। यह 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक खुली है।
- **एंप्लिफाइंग** – यह स्ट्रीम, उन प्रोजेक्ट्स के लिए मेल खाते फंडों में 25,000 डॉलर तक प्रदान करती है, जो ब्रैम्पटन में कम से कम दो बार संचालित हुए हैं। यह 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक खुली है।

सभी स्ट्रीम्स के लिए आवेदन, 2022 में होने वाले प्रोजेक्टों से संबंधित होंगे। ग्रांट्स उन लोगों के लिए खुली हैं, जो ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं; जिनमें शामिल हैं, इनकार्पोरेटेड गैर-लाभ संगठन, रजिस्टर्ड चैरिटीज और एमर्जिंग स्ट्रीम के लिए अनइनकार्पोरेटेड गैर-लाभ ग्रुप। प्रत्येक फंडिंग स्ट्रीम हेतु, आवेदकों के लिए एक [टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटी \(Term of Council Priority\)](#) का चयन करना आवश्यक है, जो उनके प्रोजेक्ट से बेहतर मेल खाती हो।

इच्छुक संगठनों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में वर्चुअल (आभासी) जानकारी सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है:

- 7 अक्टूबर – एमर्जिंग फंड जानकारी सेशन
- 14 अक्टूबर – डिवेलपिंग फंड जानकारी सेशन
- 21 अक्टूबर – एंप्लिफाइंग फंड जानकारी सेशन

लोकल गैर-लाभ संगठनों और चैरिटीज की अधिक सहायता के लिए, एडवांस ब्रैम्पटन फंड (Advance Brampton Fund) ने गैर-लाभ सेक्टर डिवेलपमेंट पर वर्कशॉप्स प्रदान करने के लिए, रायरसन यूनिवर्सिटी (Ryerson University) के जी. रेमंड चेंग स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन (G. Raymond Chang School of Continuing Education) के साथ साझेदारी की है। ये वर्कशॉप्स, संगठनों को अपनी क्षमता बढ़ाने और सेक्टर शिक्षा और कौशल को बढ़ाने में मदद करने पर केंद्रित होंगी। वर्कशॉप्स नवंबर में पेश की जाएंगी। brampton.ca/abf पर विवरण देखें।

कलाकारों के लिए नया कोविड-19 रिकवरी फंड

इस वर्ष नया, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन तथा [आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी \(Arts, Culture & Creative Industry Development Agency\)](#) (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) (ACCIDA) को, कलाकारों के लिए नया कोविड-19 रिकवरी फंड पेश करते हुए खुशी हो रही है। यह एक बेजोड़ प्रोग्राम है, जो ब्रैम्पटन के रचनात्मक सेक्टर की सहायता करने के लिए है क्योंकि ओनटैरियो ने इसे दोबारा खोलना और महामारी से बहाली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। यह प्रोग्राम कलाकारों और कला संगठनों के लिए 2020 कोविड-19 रिलीफ फंड (2020 COVID-19 Relief Fund) का विस्तार है।

अलग अलग कलाकार, महामारी से बहाली में अपनी रचनात्मक प्रैक्टिस को स्थिर करने, अपनाने या दुबारा बढ़ाने में मदद के लिए, 2,000 डॉलर तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग कलाकारों के लिए आवेदन, 4 अक्टूबर से शुरू करते हुए 2021 के अंत तक या उपलब्ध फंडिंग खत्म होने तक लगातार आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। उपलब्ध फंडिंग की कुल राशि 100,000 डॉलर है।

आवेदन शर्तों की समीक्षा करने हेतु, कलाकारों और संभावित आवेदकों के लिए जानकारी शासन भी आयोजित किए जाएंगे। विवरण [यहां \(here\)](#) मौजूद हैं।

- शुक्रवार, 22 अक्टूबर, शाम 6:30 – 8 बजे तक
- सोमवार, 22 नवंबर, शाम 6:30 – 8 बजे तक

ग्रोइंग क्रिएटिव कैरियर्स इन ब्रैम्पटन

लोकल कलाकारों की अधिक सहायता के लिए, ए.सी.सी.आई.डी.ए. (ACCIDA), [वर्कइनकल्चर \(WorkInCulture\)](#) के साथ साझेदारी में *ग्रोइंग क्रिएटिव कैरियर्स इन ब्रैम्पटन (Growing Creative Careers in Brampton)* पेश करती है। ये कलाकारों और कला संबंधी श्रमिकों के लिए 1 मुफ्त व्यापक 10-सेशन वाली प्रोफेशनल डिवेलपमेंट वर्कशॉप सीरीज है। हर सप्ताह, भागीदारों को अपने रचनात्मक कैरियर को आगे बढ़ाने में आवश्यक टूल्स प्राप्त करने हेतु इंटरैक्टिव गतिविधियों, नेटवर्किंग अवसरों, विशेषज्ञ सलाह और ड्रॉप-इन (बिना बुक किए) सेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा।

क्या आप आवेदन करना चाहते हैं?

एडवांस ब्रैम्पटन फंड और कोविड-19 आर्टिस्ट रिकवरी फंड (COVID-19 Artist Recovery Fund), दोनों के लिए, जानकारी सेशनो हेतु रजिस्टर करने और विवरणों, योग्यता तथा आवेदन संबंधी जानकारी देखने के लिए, brampton.ca/communitygrants पर जाएं।

हवाले

“हमारे कलाकारों और गैर-लाभ संगठनों को अब, पहले से कहीं अधिक हमारी सहायता की जरूरत है ताकि वो कम्युनिटी को बेहतर सेवा दे पाएं और उन्हें महामारी से बहाली में मदद मिल पाए। ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और मुझे एडवांस ब्रैम्पटन फंड की जारी सफलता और हमारे गैर-लाभ संगठनों को इससे मिलने वाले फायदे को देखकर खुशी हो रही है। मुझे अलग अलग कलाकारों के लिए यह नया पेश करने पर भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ब्रैम्पटन की रचनात्मक कम्युनिटी पर महामारी का बहुत ज्यादा असर हुआ है और मुझे उम्मीद है कि यह मौका उनकी आगे बढ़ने और बहाल होने में मदद करेगा।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“मुझे एडवांस ब्रैम्पटन फंड के लिए आवेदन खोलने के दूसरे राउंड को देखकर खुशी हो रही है। मैं ब्रैम्पटन के सारे गैर-लाभ संगठनों को आवेदन करने की सलाह देता हूँ। हमारे गैर-लाभ सेक्टर हमारी कम्युनिटी के लिए जो काम करते हैं, वे बहुमूल्य हैं, विशेषकर जब हम महामारी से बहाली की ओर बढ़ रहे हैं। यह फंडिंग अवसर, ब्रैम्पटन को स्वस्थ और सुरक्षित शहर में योगदान देने में मदद करता है।”

- *हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“मुझे यह देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन तथा आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी हमारे कलाकारों की महामारी से बहाली की ओर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने हेतु मदद के लिए यह फंडिंग मौका पेश कर रही है। ब्रैम्पटन के कलाकारों पर कोविड-19 का बहुत ज्यादा असर हुआ है और ब्रैम्पटन के मोजैक में महत्वपूर्ण योगदान करने वालों के तौर पर सहायता के लिए उपलब्ध इस तरह के मौके मिलना बहुत ही अच्छा है।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; काउंसिल पैनल मेम्बर, आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कल्चरल सर्विसिज टीम, एडवांस ब्रैम्पटन फंड और कलाकारों के लिए कोविड-19 रिकवरी फंड जैसे अवसरों के द्वारा, हमारी कम्युनिटी की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं, इन फंडिंग स्ट्रीम्स में इच्छुक हर किसी व्यक्ति को सलाह देता हूँ कि जानकारी सेशनो में हिस्सा लें और अपने आवेदन जमा करें।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*



Media Release

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca